

मुख्य पोस्ट मास्टर, जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी 2010—माघ 8, शक 1931

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-771.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरीय निकायों के आम निर्वाचन, माघ जनवरी, 2010 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद् / नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सटई, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	कुम्हार सरमन लाल
2	नगरपालिका परिषद्, शिवपुरी, जिला-शिवपुरी.	पार्षद	4	चार	श्री संजय गुप्ता “पप्पू”
3	नगर पंचायत, सिरमौर, जिला-रीवा.	पार्षद	7	सात	लालमणि प्रजापति
4	नगर पंचायत, सोहागपुर, जिला-होशंगाबाद.	पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती गायत्री प्रहलाद साहू

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.